



G.D GOENKA PUBLIC SCHOOL

Affiliated to C.B.S.E vid no 730090 School code 23586
Umar Colony, Sadarbal, Lal Bazar, Srinagar U T of J&K



Student Name _____ Class _____ Section _____ Admn.No _____

Aspect-Bridging Assignment

Session 2021-22

Note: The given content need not to be printed.

Week-4

Date:-17.1.2022 - 22.01.2022

Learning Objectives:

1. To provide kids a fundamental understanding of importance of plants.
2. To make students understand that trees are important for making our environment green and clean.
3. To enhance the cognitive and critical thinking among students.
4. To make students understand the importance of protecting and preserving the plants.

पेड़ों का महत्व



विवेक कहाँ हो बेटा? नाश्ता कर लो।' मां की आवाज सुनकर विवेक आया और नाश्ता करके सो गया। विवेक की मां भी सारा काम निबटा कर बगीचे में चली गई, पर वहाँ का दृश्य देखकर विवेक की मां के तो होश उड़ गए। फूल इधर बिखरे हुए थे और पत्तियाँ उधर बिखरी हुई थीं। विवेक के पिताजी कल एक पौधा लाए थे वह भी जमीन पर पड़ा था।

विवेक रोज स्कूल से आता और बगीचे में जाकर पेड़ों को रौंदने लगता। कभी कच्चे जामफलों को अच्छा न लगने पर बगीचे में फेंक देता, तो कभी सुगंधित फूलों को बड़ी बेरहमी से तोड़कर सड़क पर फेंक देता। विवेक के पिताजी कभी कोई नया पौधा लगाते तो उसे भी पनपने न देता। विवेक की मां इससे बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने विवेक को कई बार समझाया था पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी।



एक दिन विवेक थका-मांदा विद्यालय से आया और भोजन कर सो गया। उसने सपने में देखा कि वह एक बंजर जमीन पर खड़ा था। वहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, न पीने को पानी था। विवेक वहाँ इधर-उधर घूमने लगा पर उसे वहाँ कोई इंसान या पक्षी नजर नहीं आया। वहाँ घूमते हुए उसे कुछ हड्डियाँ और नर कंकाल मिले, यह सब देखकर विवेक बहुत डर गया और वह भागने लगा।

भागते-भागते उसे एक जगह कुछ घास उगी हुई दिखी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे कुछ लोग मिले। वे बुरी तरह तड़प रहे थे। विवेक के पूछने पर उन्होंने बताया कि लोगों के पेड़ काटने से वर्षा नहीं होती और वर्षा न होने के कारण पीने का पानी भी नहीं मिलता। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते थे। वर्षा होने के कारण तापमान में ठंडक आती है अब पेड़ खत्म हो जाने के कारण सूर्य की तेज गरमी से हम झुलस गए हैं।



इन लोगों की दशा देखकर विवेक को रोना आ गया और तभी एक संत आए और उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ रखकर कहा - 'विवेक, जहां तुम सबसे पहले गए थे वो उस समय का भविष्यकाल है, जब धरती पर रहने वाले जीव खत्म हो गए थे और जहां तुम अभी हो ये वो जगह है जहां लोग धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और ये सब उन पेड़ों के काटने के कारण हो रहा है। अगर तुम पेड़ों को लगाओगे और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दोगे तो हमारी पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहेगी।'



इतना कहकर संत गायब हो गए। यह देख विवेक जोर-जोर से रोने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि मुझे कोई हिला रहा है और उसकी नींद खुल गई। वहां उसकी मां खड़ी थी। विवेक अपनी मां से लिपट गया और बोला - 'मां मैं अब पेड़ लगाऊंगा।' यह सुनकर मां आश्चर्य में पड़ गई।

Work Time

Instructions:

1. Students are recommended to complete the assigned work on loose sheets of A4 size.
2. Use of pencil for writing purpose will be preferred.
3. Students are instructed to maintain a diary and write on it everyday, decorate it with stickers, drawing or any picture.
4. The attempted work/project should be kept in safe custody as they are to be submitted to the school once the school reopens.
5. Students are instructed to read the passage carefully, so that they can improve their reading skills and then mark the difficult words.
6. After marking the difficult words, students are instructed to learn them and to write them on a loose sheet.
7. Students are instructed to make the sentences of the difficult words marked by them.
8. Students are instructed to write the given passage in their beautiful handwriting, to improve their writing skills.